



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1931 (श0)
(सं0 पटना 620) पटना, शुक्रवार, 11 दिसम्बर 2009

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार
आदेश

12 नवम्बर 2009

सं0 7 नि./विधि.-06-के.स.अधि.-03/09-7138—चूँकि, अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 1900, दिनांक 25 मार्च 2008 द्वारा परिसमापनाधीन, दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लहेरियासराय, दरभंगा के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला पदाधिकारी, दरभंगा को (उनके पदनाम से) परिसमापक नियुक्त किया गया था, परन्तु बिहार सहकारी अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार परिसमापक की नियुक्ति संबंधित पदाधिकारी के नाम से किया जाना है।

अतएव मैं नरसिंह उपाध्याय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी अधिनियम 1935 की धारा-44 (2) एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली-1959 के नियम-64 (2) के अन्तर्गत श्री प्राण मोहन ठाकुर, जिला पदाधिकारी, दरभंगा को दरभंगा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लहेरियासराय, दरभंगा का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

तदनुसार पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1900, दिनांक 25 मार्च 2008 एतद् द्वारा संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरसिंह उपाध्याय,
निबंधक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 620-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>